

New Delhi

Dated: 10.05.2023

ओएनजीसी



ongc



Regd. Office: Plot No. 5A-5B, Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi- 110070 CIN No L74899DL1993G0I054155 | Website: www.ongcindia.com | Email: secretariat@ongc.co.in

NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATE NOTICE is hereby given that the equity Share Certificate(s) of the following shareholders have been reported as lost/misplaced and they have applied for issuance of duplicate Share Certificate(s):

Name of Share Holder	Folio No.	No. of Shares	Share Certificate Number	Distinctive Nos.
M RANGARAJAN	04005	1836	2961	1786919-1788754
		1836	968496	8557863714-8557865549
	21305	1836 5508	478122	4279531979-4279533814

supporting documents with the Company within 7 days of the publication of this notice, after which no claim will be entertained and the Company will proceed to consider issuing duplicate share certificate(s) to the above mentioned applicant(s). Further, public is hereby warned against purchasing or dealing in any way with the above mentioned share

Any person(s) who has/have any claim in respect of the said certificate(s) can lodge such claim with the

certificate(s). Any person dealing with the above share certificate(s) shall be doing so, solely at his/ her risk as to costs and consequences, the Company shall in no way be held responsible for such dealing(s).

For Oil and Natural Gas Corporation Ltd

Company Secretary & Compliance Officer POST-OFFER PUBLIC ANNOUNCEMENT TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

# PH TRADING LIMITED

Corporate Identification Number: L51109WB1982PLC035011; Registered Office: B Block, 113, 10th Floor, Park Street, Kolkata – 700016, West Bengal, India; Contact Details: +033 - 22299697 / 22299538 / 40675050 / 22268993; Website: https://phtradinglimited.com/; Email Address: himatsingka@hotmail.com;

Open Offer for acquisition of up to 1,23,340 (One Lakhs Twenty-Three Thousand Three Hundred and Forty) Equity Shares, representing 25.70% (Twenty-Five Point Seven Zero Percent) of the Voting Share Capital of PH Trading Limited ('PHTRADING' or 'Target Company'), at an offer price of Rs.75.00/- (Rupees Seventy-Five Only) ('Offer Price'), made by Santan Investment Advisory LLP ('Acquirer 1'), Mr. Mallinath Madineni ('Acquirer 2'), and Mrs. Prathima Mallinath Madineni ('Acquirer 3'), in accordance with the provisions of Regulations 3 (1) and 4 of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, and subsequent amendments thereto ('SEBI (SAST) Regulations') ('Offer').

This Post-Offer Public Announcement is being issued by Bonanza Portfolio Limited, the Manager to the Offer ('Manager'), on behalf of the Acquirers, in connection with the Offer made by the Acquirers to the Public Shareholders of the Target Company, pursuant to and in compliance with the provisions of Regulation 18 (12) and other applicable provisions under the SEBI (SAST) Regulations ('PoPA'). This PoPA should be read in continuation of, and in conjunction with the: (a) Public Announcement dated Friday, January 06, 2023 ('PA'), (b) Detailed Public Statement dated Thursday, January 12, 2023, published on Friday, January 13, 2023, in the newspapers, namely being, Financial Express (English daily) (All Editions), Jansatta (Hindi daily) (All Editions), Mumbai Lakshadweep (Marathi Daily) (Mumbai Edition), and Duranta Barata (Bengali daily) (Kolkata Edition) ('Newspapers') ('DPS'), (c) Letter of Offer dated Friday, April 07, 2023, along with form of Acceptance cum Acknowledgement ('Letter of Offer' or 'LOF'), and (d) Pre-Offer Advertisement cum Corrigendum to the Detailed Public Statement dated Tuesday, April 18, 2023, published in the Newspapers on Wednesday, April 19, 2023. This PoPA is being published in the same aforesaid Newspapers. 1 Name of the Target Company PH Trading Limited

1.	Name of the Target Company	PH Trading Limited				
	Name of the Acquirers and PACs		visory LLP (Acquirer 1),			
	1-9	Mrs. Prathima Mallinath Madineni (Acquirer 3). There is no person acting in concert with				
	L	the Acquirers for this C				
3.	Name of Manager to the Offer	Bonanza Portfolio Limited				
	Name of Registrar to the Offer	Purva Sharegistry (Indi	a) Private Limited			
).	Offer Details					
5.1	Date of Opening of the Offer	Thursday, April 20, 20				
.2	Date of Closing of the Offer	Thursday, May 04, 20	23			
	Date of Payment of Consideration	Friday, May 19, 2023				
	Details of the Acquisition	Ž				
	Particulars	Proposed in the C		,	Actuals	
	Offer Drice	(Assuming full accep		D.	• 7F 00/	
′.1	Offer Price	Rs.75		K	s.75.00/-	
.2	Aggregate number of Equity Shares tendered	1,23,			0	
.3	Aggregate number of Equity Shares accepted	1,23,	340		0	
.4	Size of the Open Offer(Number of Equity Shares multiplied by Offer Price per Equity Share)			0		
-		ce per Equity Share) Rs. 92,50,500/- 0  Acquirers before the Share Purchase Agreement/ Public Announcement				
.5		•			44.740	
)	Number of Equity Shares	41,7	9.1		41,710	
)	% of fully diluted Equity Share capital		8.69%		8.69%	
.6	Equity Shares acquired by way of Share Purch	•	050		44.050	
1)	Number of Equity Shares	3,14,			,14,950	
)	% of fully diluted Equity Share capital	65.6	1%	6	35.61%	
.7	Equity Shares acquired by way of Offer	(A)				
)	Number of Equity Shares	1,23,			Nil	
)	% of fully diluted Equity Share capital	25.7	0%		0 %	
.8	Equity Shares acquired after the Detailed Public		1.0			
)	Number of Equity Shares acquired	Ni		Nil		
)	Price of the Equity Shares acquired	Ni			Nil	
)	% of Equity Shares acquired	Ni			Ni	
.9	Post-Offer shareholding of the Acquirers		11.7			
1)	Number of Equity Shares	4,80,			,56,660	
)	% of fully diluted Equity Share capital	100	%	7	74.30%	
1.10	Pre-Offer and Post-Offer shareholding of the Pu	iblic Shareholders				
	Particulars	Pre-Offer	Post-Offer	Pre-Offer	Post-Offer	
a)	Number of Equity Shares	1,23,340	Nil	1,23,340	1,23,340	
b)	% of fully diluted Equity Share capital	25.70%	0.00%	25.70%	25.70%	

The Acquirers will consummate the Share Purchase Agreement transaction in accordance with the provisions of Regulations 22 (1), and 22 (3) read with 17 of the SEBI (SAST) Regulations and will make an application for reclassification of themselves as the promoters of the Target Company in accordance with the provisions of Regulation 31A (10) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, including subsequent amendments thereto ('SEBI (LODR) Regulations'). A copy of this PoPA will be accessible on the websites of Securities and Exchange Board of India at www.sebi.gov.in, BSE at www.bseindia.com

The Acquirers accept full responsibility for the information contained in this PoPA and for their obligations specified under SEBI (SAST) Regulations.

and the registered office of the Target Company. 11. The capitalized terms used in this PoPA shall have the meaning assigned to them in the LoF, unless otherwise specified.

ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER



**BONANZA PORTFOLI LIMITED** Bonanza House, Plot No. M-2, Cama Industrial Estate, Walbhat Road, Behind The Hub, Goregaon East, Mumbai – 400 063, Maharashtra, India Contact Number: +91-22-62735500/ 68363700 Email Address: swati.agrawal@bonanzaonline.com Contact Person: Ms. Swati Agrawal

SEBI Registration Number: INM000012306 Validity: Permanent for Santan Investment Advisory LLP

Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
Mallinath Madinen (Partner)	Prathima Mallinath Madineni (Partner)	(Mallinath Madineni)	(Prathima Mallinath Madineni)
	33	3	CH.

Date: Thursday, May 11, 2023 Place: Mumbai

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD. (A Govt. of India Undertaking-Mini Ratna Company) CIN No.U74899DL1963GOI003913 RO: Block-AQ, Plot -12, Sector-5,

Salt Lake, Kolkata-700 091

Ph. 033-2367-1077 / 74,

E-mail : nsc.kolkata.ro@gmail.com

No:- Prodn:- 03/NSC: KOL/2023-24/ Dated: 11-05-2023 NOTICE Short-term e-Tender Notice for Supply of fresh finished product of TL category of Fodder Cowpea variety EC - 4216 (1000 qtls.).

For details, please visit NSC's website www.indiaseeds.com under Public Notice (Tender / Quotations) Online Bids for above tender must be submitted at NSC e-Portal: https://indiaseeds.enivida.com latest by 14:30 Hrs. of 18-05-2023 Corrigendum / addendum, if any, shall only be published in NSC's website. Regional Manager NSC, Kolkata

# Apollo

NDRAPRASTHA MEDICAL CORPORATION LIMITED Regd. Office : Sarita Vihar, Delhi-Mathura Road, New Delhi - 110 076 (India) Corporate Identity Number: L24232DL1988PLC030958
Phone: 91-11-26925858, 26925801, Fax: 91-11-26823629
E-mail: imcl@apollohospitals.com, Website: delhi.apollohospitals.com

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, 23<sup>rd</sup> May, 2023, inter alia to consider and approve, the audited financial results for the quarter / year ended 31st March, 2023, and to consider and recommend dividend, if any, on equity shares of the Company for the financial year 2022-23.

The above information is also available on the website of the Company i.e. https://delhi.apollohospitals.com and on the website of the stock exchanges i.e. on www.bseindia.com and www.nseindia.com

New Delhi 11.05.2023

Priya Ranjan AVP - Corporate Affairs & Legal

#### MIHIKA INDUSTRIES LIMITED

Corporate Identification Number: L70101WB1983PLC035638; Registered Office: 3, 2nd Floor, Bentinck Street, Kolkata-700001, West Bengal, India.; Contact Number: 033-65366663; Website: www.mihika.co.in; Email Address: mihikaindustries@gmail.com.

Recommendations of the Committee of Independent Directors (IDC) of MIHIKA INDUSTRIES LIMITED ('MIL' or 'Target Company') on the Offer made by Veggie Fest Foods Private Limited ('Acquirer') to the Public Shareholders of the Target Company in accordance with the provisions of Regulation 26 (7) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 including subsequent amendments thereto (SERI (SAST)

1.	Date	Thursday, May 11, 2023		
2.	Name of the Target Company	Mihika Industries Limited		
3.	Details of the Offer pertaining to the Target Company	This Offer is being made by Veggie Fest Foods Private Limited the provisions of Regulations 3 (1) and 4 of the SEBI (SAST) Reg of up to 26,00,000 (Twenty-Six Lakhs) fully paid-up equity shares Only) ('Equity Shares') each representing 26.00% (Twenty-Six Share Capital of the Target Company, at a price of ₹24.00 (Rup per Equity Share, payable in cash ('Offer Price').	ulations, for acquisition of ₹10.00 (Rupees Ten Percent) of the Voting	
4.	Names of the Acquirers and PAG with the Acquirer	Veggie Fest Foods Private Limited There is no person acting in concert with the Acquirer for this Offer		
5.	Name of the Manager to the Offer	BONANZA PORTFOLIO LIMITED Corporate Identification Number: U65991DL1993PLC052280 Bonanza House, Plot No. M-2, Cama Industrial Estate, Walbhat Goregaon (East), Mumbai - 400 063 Contact Person: Ms. Swati Agrawal Tel No.: +91 22 62735500/ 68363700 Email: swati.agrawal@bonanzaonline.com SEBI Registration No.: INM000012306	Road, Behind The Hub.	
6.	Members of the Committee of	Mr. Rajesh Shah	Chairman	
	Independent Directors	Mr. Mali Chand Agarwala Ms. Malti Jaiswal	Member Member	
7.	IDC Member's relationship with the Target Company (Directors, Equity Shares owned, any other contract/ relationship)	a) IDC Members are Independent Directors on the Board of the b) None of the IDC Members holding Equity Shares of the Targe c) None of the members of IDC hold any contracts or any re related in any way with the Target Company other than actin Target Company.	t Company. lationship, nor are they	
8.	Trading in the Equity Shares/ other securities of the Target Company by IDC Members	a) None of the members of IDC have traded in any Equity Share Target Company during the period of twelve months Announcement dated Monday, February 06, 2023;     b) None of the members of IDC have traded in any Equity Share Target Company during the period from the Public Announ February 06, 2023, till the date of this recommendation;	s prior to the Public s/other securities of the	
9.	IDC Member's relationship with the Acquirer (Directors, Equity Shares owned, any other contract/ relationship)	The members of IDC neither have any contracts nor relationship manner.	with the Acquirer in any	
1000	W-88800 W C 2005 EL DIFF OF STATE SOC.	State (Alternative State)		

10. Trading in the Equity Shares/ Not Applicable. other securities of the Acquirers by IDC Members Recommendation on the Offer, The members of the IDC have perused the (a) Public Announcement dated Monday February 06, 2023 ('PA'), (b) Detailed Public Statement dated Thursday, February 09, as to whether the Offer, is or is not, fair, and reasonable 2023 which was published on Friday, February 10, 2023 in the newspapers, namely being, Financial Express (English daily) (All Editions), Jansatta (Hindi daily) (All Editions), Mumbai Lakshadweep (Marathi Daily) (Mumbai Edition), and Duranta Barata (Bengali) (Kolkata Edition), (c) Draft Letter of Offer dated Friday, February 17, 2023 (DLoF) and (d) Letter of Offer dated Friday, May 05, 2023, along with the Form of Acceptance-cum-Acknowledgement ('LoF'), (the PA, DPS, DLoF, and LoF are hereinafter collectively referred to as 'Offer Documents') issued by the Manager on behalf of the Acquirer, the members of IDC believe that Offer is fair and reasonable, in accordance with the provisions of SEBI (SAST) Regulations.

Summary of Reasons of Based on the review of the Offer Documents, the members of IDC have considered the Recommendation following for making recommendations: a) Offer Price is justified in terms of the parameters prescribed under Regulations 8 (1) and 8 (2) of the SEBI (SAST) Regulations; b) Keeping in view of the above fact, the members of IDC are of the opinion that the Offer Price of ₹24.00 (Rupees Twenty-Four Only) payable in cash per Equity Share to the Public Shareholders of the Target Company for this Offer is fair and reasonable. However, the Public Shareholders should independently evaluate the Offer and take

informed decision on the matter.

Details of Independent Advisors Disclosure of Voting Pattern of All the IDC members unanimously voted in favor of recommending this Offer proposal. the meeting in which the open offer proposal was discussed Any other matter to be

highlighted To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respect, true, correct, and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the Target Company under SEBI (SAST) Regulations.

> For and on behalf of Committee of Independent Directors Mihika Industries Limited Mr. Rajesh Shah

Place : Mumbai Date: Thursday, May 11, 2023 (Chairman of IDC) NMDC STEEL Limited

NMDC Iron & Steel Plant, Post - Nagarnar (Bastar) C.G. PIN-494001 (CIN) - U27310CT2015GO1001618 GSTIN: 22AAFCN3661C1ZX

**OPEN TENDER ENQUIRY** 

NMDC Steel Limited, Nagamar, invites sealed tenders in two bid system with last date & Time for submission of offers as 09.06.2023 by 02.30 PM for the following: 1) Name of Work: "Electrical works for Modular Station at Area Shop Office Buildings (CMOS, Blast Furnace & Sinter Plant, HSM, Coke-Oven and RMHS at NSL, Nagarnar (CG) 494001. Tender No: NSL/CONTRACTS/CON/349/ASO Elect. Wiring /2023/332 Dated 12.05.2023 Tender documents can be downloaded from websites www.nmdc.co.in or

www.eprocure.gov.in in tender section. GM (Commercial)/Contracts

दि फर्टिलाइज़र्स एण्ड केमिकल्स टावनकोर लिमिटेड

हर एक काम देश के नाम

THE FERTILISERS AND CHEMICALS TRAVANCORE LIMITED A Government of India Enterprise) Regd. Office: Eloor, FACT-PD Administrative Building orporate Materials, Udyopamandal - 683501, Kochi, Kerala, Ph.: 0484-2568204 / 2568634,Fax: 0484-254517 E-TENDER FOR COOLING WATER TREATMENT PROGRAMME

### Tender No.GEM/2023/B/3428418 DATED 10.05.2023

Online Bids are invited for Cooling Water Treatment Programme for 38 Months for the Main plant Cooling Tower of FACT - Ammonium Complex in Udyogamandal Division. Interested bidders may visit Government e Marketplace (gem.gov.in) for tender details. Any updates/extension of due date will e published in GeM only. Due date/time for submission of bids: 25.05.2023 / 04.00 PM.

(Hindi version of this advertisement can be accessed in https://www.fact.co.in/) Ùdyogamandal Date: 11.05.2023 Deputy General Manager (Materials) ESS

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD. (भारत सरकार का नवरत्न उपक्रम) (A Navratna Undertaking of Govt. of India) NSIC New MDBP Building, 2nd Floor, Okhla Indl. Estate (Opp. NSIC Okhla Metro Station), New Delhi-110020 TENDER NOTICE (E-Tendering Mode Only) CONCOR invites Online tender in two packet bid system from established, experienced & reliable manufacturers or/and from their authorized dealer for the Supply of Transmission Part No. H4024315 TE-32 Full Flow, Model No. 15.7 TE-32418-81/15.7TE32418-90 at Container Corporation of India Ltd ICD/Tughlakabad, New Delhi-110020, only through e-tendering mode. The bid document can only be downloaded after paying Rs. 1000/-\* through online from the website (www.tenderwizard.com/CCIL). Bid Reference Tender No. कॉन / टीकेडी / तक / खरीद / Transmission/2022/67471 4 Nos. Estimated Cost : ₹ 1,36,67,019/endered Quantity elivery Schedule Within 120 days from the date of PO Earnest Money Rs. 2,73,340/-\* through e-payment (NEFT/RTGS) Rs.4,720/- inclusive of all taxes and duties through online payment Tender Processing Fee From 12.05.2023 from 15:00 Hrs. to 01.06.2023 upto 16:00 Hrs. Period of Tender Sale (On Line) Date & Time of submission of Bid On or before 01.06.2023 up to 17:00 Hrs. Date & Time of Opening of Bid 02.06.2023 at 15:30 Hrs. Group General Manager/Technical/AREA-1, CONCOR, NSIC, Place of Opening and MDBP Building, 2nd Floor, Okhla Industrial Estate, New Delhi-11002 Communication Address

### ANDHRA CEMENTS LIMITED

any reasons thereof. For complete details logon to www.tenderwizard.com/CCIL

\*Exemption for MSE.

(A Subsidiary of SAGAR CEMENTS LIMITED) CIN: L26942AP1936PLC002379 Registered Office: Durga Cement Works, Sri Durgapuram, Dachepalli - 522414, Palnadu Dist, (AP) Telephone: +91-8649-257440 Fax.: +91-8649-257428

e-mail id: investorcell@andhracements.com Website: www.andhracements.com

#### NOTICE Service of Documents through Electronic mode

CONCOR reserves the right to reject any or all the tenders without assigning

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 read with rules made thereunder and the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Companies are permitted to serve various notices/documents to its members through electronic modes.

Further, in view of present circumstances caused due to COVID-19, the Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide its circular no. 14/2020 dated 08.04.2020, 17/2020 dated 13.04.2020, 20/20 dated 05.05.2020, 28/2020 dated 17.08.2020, 02/2021 dated 13.01.2021, 19/2021 dated 08.12.2021, 21/2021 dated 14.12.2021, 02/2022 dated 05.05.2022 and 10/2022 dated 28.12.2022 has allowed the companies to conduct their Annual General Meetings (AGM) through Video-conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM") during the calendar year 2023 and send financial statements (including Board's Report, Auditor's Report or other documents required to be attached therewith) and notices of General Meetings to the members only through e-mails registered with the company or with the depository participant / depository. Further SEBI vide circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022 has also relaxed the requirement of furnishing hard copy of Annual Reports to the Members.

The Company shall accordingly be sending all notices and documents like General Meeting Notices (including AGM), Financial Statements, Directors' Report, Auditors Report, Postal Ballot papers and other communications as may be applicable to the members through electronic mode at the designated email addresses as furnished by them in the manner prescribed under the Companies Act, 2013, SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and the relevant rules and circulars applicable in this regard.

The 84th Annual General Meeting of the company will be held on Monday, the 5th June, 2023 at 3.00 p.m. through Video Conference ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"). Members may note that the Notice and the Annual Report for 2022-2023 will be available on the website of the Company at www.andhracements.com

In view of the above, Members are requested to register their e-mail addresses, Mobile No(s) or if any changes therein, and the PAN number in the following manner: Members with physical holding: A signed request letter mentioning your folio no. and the email id/Mobile No/PAN (Self attested copy) that is to be registered (scanned copy of the signed request letter) may be sent to the company's e-mail id investorcell@andhracements.com and / or to the company's registrar and transfer agents, M/s. CIL Securities Limited email id rta@cilsecurities.com.

Members with Demat Holding: Register/Update through respective Depository Participants (DPs) (Any such updation effected by the DPs will automatically reflect in the company subsequent Records).

For and on behalf of Andhra Cements Limited

Place: Hyderabad Date: 11th May, 2023

G. Tirupati Rao Company Secretary Membership No.F2818

OrchidPharma P

# ORCHID PHARMA LIMITED

CIN: L24222TN1992PLC022994

Regd. Office: 'Orchid Towers' #313, Valluvar Kottam High Road, Nungambakkam, Chennai - 600034, Tamil Nadu, India Ph. +91 - 44 - 2821 1000 / 2823 0000, Fax: +91 - 44 - 2821 1002 Email id: corporate@orchidpharma.com, Website: www.orchidpharma.com

STATEMENT OF AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2023 (Rs.in Lakhs)

				Standalone				Co	onsolidated	d	
S. No	Particulars	Quarter ended Mar 31, 2023 (Audited)	Quarter ended Dec 31, 2022 (Unaudited)	Quarter ended Mar 31, 2022 (Audited)	Year ended Mar 31, 2023 (Audited)	Year ended Mar 31, 2022 (Audited)	Quarter ended Mar 31, 2023 (Audited)	Quarter ended Dec 31, 2022 (Unaudited)	Quarter ended Mar 31, 2022 (Audited)	Year ended Mar 31, 2023 (Audited)	Year ended Mar 31, 2022 (Audited)
1	Total Income from Operations	21,162.95	16,869.13	18,198.10	68,532.89	56,597.73	21,162.95	16,869.13	17,987.92	68,532.89	56,856.03
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax and exceptional items)	2,672.03	672.84	13.86	1,603.65	(5,277.04)	2,672.04	672.84	(356.60)	1,603.65	(5,689.87)
3	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after exceptional items)	6,593.07	672.84	13.86	5,524.69	(5,277.04)	6,593.08	672.84	(356.60)	5,524.69	(5,689.87)
4	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after exceptional items)	6,487.26	672.84	(178.11)	5,418.88	(480.72)	5,915.57	672.84	(548.57)	4,847.18	157.15
5	Other comprehensive income (net of tax)	91.91	(36.59)	94.41	(17.88)	142.30	91.91	(36.59)	94.41	(17.88)	142.30
6	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	6,579.17	636.25	(83.70)	5,401.00	(338.42)	6,005.88	722.10	(564.23)	4,613.95	(52.82)
7	Equity Share Capital (face value of Rs.10 per share)	4,081.64	4,081.64	4,081.64	4,081.64	4,081.64	4,081.64	4,081.64	4,081.64	4,081.64	4,081.64
8	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	NA	NA	NA	69,114.62	63,713.62	NA	NA	NA	64,783.26	60,656.35
9	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) a. Basic	15.89	1.65	(0.44)	13.28	(1.18)	14.49	1.86	(1.61)	11.35	(0.48)
	b. Diluted	15.89	1.65	(0.44)	13.28	(1.18)	14.49	1.86	(1.61)	11.35	(0.48)

The Audited Standalone and Consolidated financial results for the quarter and financial year ended March 31, 2023 were reviewed and recommended by the audit committee and subsequently approved by the Board of Directors at its meeting held on May 10, 2023. The Statutory Auditors have conducted an audit of the above Standalone and Consolidated financial result and have issued the Audit Report with modified opinion in respect of Audited Consolidated financial results and un-modified opinion on the Audited Standalone financial results for the financial year ended March 31, 2023.

The above is an extract of the detailed format of the guarterly and annual Audited Consolidated and Standalone financial results for the guarter and year ended March 31, 2023 filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Obligations Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Audited Consolidated and Standalone Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2023 are available on the website of the BSE Limited i.e.

For and on behalf of Board of Directors of Orchid Pharma Limited

Manish Dhanuka Managing Director DIN:00238798

Place: Valapad, Thrissur

Date: 10.05.2023





Regd. Office: 5th Floor, IV/470A (Old) W/638 (New), Manappuram House, Valapad, Thrissur - 680567. CIN: U65923KL2010PLC039179

[Regulation 52(8), read with Regulation 52(4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015]

Statement of Audited Financial Results for the quarter and year ended March 31 2023 (Amount Rs.in Lakhs)

S.		Quarter ended		Year Ended		
No		31-MAR-23 (Audited)	31-MAR-22 (Audited)	31-MAR-23 (Audited)	31-Mar-22 (Audited)	
1	Total Income from Operations	4,896.67	3,810.64	16,574.14	12,260.72	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	877.65	130.61	2,591.70	990.8	
3	"Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)"	877.65	130.61	2,591.70	990.87	
4	"Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)"	737.59	45.59	1,946.87	721.1	
5	"Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income(after tax)]"	750.50	57.97	1,947.28	727.90	
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/- per share)	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserves)	3,644.59	1,697.32	3,644.59	1,697.3	
8	Securities Premium Account		•		8	
9	Net Worth	23,644.59	21,697.32	23,644.59	21,697.3	
10	Paid up Debt Capital/Outstanding Debt		- 10			
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	2	•			
12	Debt Equity Ratio	4.00	2.87	4.00	2.8	
13	Earnings per Share (Face Value of Rs. 10 each)(For continuing and discontinuing operations) - Basic	0,38	0.08	0.97	0.3	
	- Diluted	0.38	0.08	0.97	0.3	
14	Capital Redemption Reserve		- 12			
15	Debenture Redemption Reserve	8				
16	Debt Service Coverage Ratio		(4)	2		
17	Interest Service Coverage Ratio	20	850			

"a) The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of quarterly financial results are available on the websites of the Stock Exchange(s) (www.bseindia.com) and the listed entity (www.manappuramhomefin.com)."

b) For the items referred the Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange(s) (BSE Lmited) and can be accessed on the URL (www.bseindia.com).

New Delhi

V.P.Nandakumar Chairman (DIN No: 00044512)

For and on behalf of the Board of Directors

financialexp

Place : Gurugram

Date: May 10, 2023



## MIHIKA INDUSTRIES LIMITED

Corporate Identification Number: L70101WB1983PLC035638;

Registered Office: 3, 2nd Floor, Bentinck Street, Kolkata-700001, West Bengal, India.;

Contact Number: 033-65366663; Website: www.mihika.co.in: Email Address: mihikaindustries@gmail.com. Recommendations of the Committee of Independent Directors ('IDC') of MIHIKA INDUSTRIES LIMITED ('MIL' or 'Targe' Company') on the Offer made by Veggie Fest Foods Private Limited ('Acquirer') to the Public Shareholders of the Target Company in accordance with the provisions of Regulation 26 (7) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 including subsequent amendments thereto (SEBI (SAST) Regulations').

1.	Date	Thursday, May 11, 2023		
2.	Name of the Target Company	Mihika Industries Limited		
3.	Details of the Offer pertaining to the Target Company	This Offer is being made by Veggie Fest Foods Private Limited ('Acquirer') pursuant to the provisions of Regulations 3 (1) and 4 of the SEBI (SAST) Regulations, for acquisition of up to 26,00,000 (Twenty-Six Lakhs) fully paid-up equity shares of ₹10.00 (Rupees Ten Only) ('Equity Shares') each representing 26.00% (Twenty-Six Percent) of the Voting Share Capital of the Target Company, at a price of ₹24.00 (Rupees Twenty-Four Only) per Equity Share, payable in cash ('Offer Price').		
4.	Names of the Acquirers and PAG with the Acquirer	Veggie Fest Foods Private Limited There is no person acting in concert with the Acquirer for this Offer		
5.	Name of the Manager to the Offer	BONANZA PORTFOLIO LIMITED Corporate Identification Number: U65991DL1993PLC052280 Bonanza House, Plot No. M-2, Cama Industrial Estate, Walbhat Road, Bonanza House, Plot No. M-2, Cama Industrial Estate, Walbhat Road, Bonanza Office (East), Mumbai - 400 063 Contact Person: Ms. Swati Agrawal Tel No.: +91 22 62735500/ 68363700 Email: swati.agrawal@bonanzaonline.com SEBI Registration No.: INM000012306	shind The Hub	
6.	Members of the Committee of	Mr. Rajesh Shah	Chairman	
	Independent Directors	Mr. Mali Chand Agarwala	Member Member	
7.	IDC Member's relationship with the Target Company (Directors, Equity Shares owned, any other contract/ relationship)	a) IDC Members are Independent Directors on the Board of the Target Company.     b) None of the IDC Members holding Equity Shares of the Target Company.     c) None of the members of IDC hold any contracts or any relationship, nor are the related in any way with the Target Company other than acting in directorship in the Target Company.		
8.	Trading in the Equity Shares/ other securities of the Target Company by IDC Members	a) None of the members of IDC have traded in any Equity Shares/other starget. Company during the period of twelve months prior Announcement dated Monday, February 06, 2023;     b) None of the members of IDC have traded in any Equity Shares/other starget. Company during the period from the Public Announcement February 06, 2023, till the date of this recommendation;	to the Publi securities of th	
9.	IDC Member's relationship with the Acquirer (Directors, Equity Shares owned, any other contract/ relationship)	The members of IDC neither have any contracts nor relationship with the manner.	Acquirer in an	
10.	Trading in the Equity Shares/ other securities of the Acquirers by IDC Members	Not Applicable.		
11.	Recommendation on the Offer, as to whether the Offer, is or is not, fair, and reasonable	The members of the IDC have perused the (a) Public Announcement February 06, 2023 (PA), (b) Detailed Public Statement dated Thursday 2023 which was published on Friday, February 10, 2023 in the newspheing, Financial Express (English daily) (All Editions), Jansatta (Heditions), Mumbai Lakshadweep (Marathi Daily) (Mumbai Edition), and (Bengali) (Kolkata Edition), (c) Draft Letter of Offer dated Friday, Feb ('DLoF') and (d) Letter of Offer dated Friday, May 05, 2023, along with Acceptance-cum-Acknowledgement ('LoF'), (the PA, DPS, DLoF, and LoF collectively referred to as 'Offer Documents') issued by the Manager of Acquirer, the members of IDC believe that Offer is fair and reasonable, with the provisions of SEBI (SAST) Regulations.	y, February 09 papers, namely indi daily) (A Duranta Barata ruary 17, 202: th the Form of are hereinafte in behalf of the	
12.	Summary of Reasons of Recommendation	Based on the review of the Offer Documents, the members of IDC have following for making recommendations:  a) Offer Price is justified in terms of the parameters prescribed under Reand 8 (2) of the SEBI (SAST) Regulations;  b) Keeping in view of the above fact, the members of IDC are of the confer Price of ₹24.00 (Rupees Twenty-Four Only) payable in cash per the Public Shareholders of the Target Company for this Offer is fair a However, the Public Shareholders should independently evaluate the informed decision on the matter.	egulations 8 (1 opinion that the Equity Share to nd reasonable	
13.	Details of Independent Advisors if any	None.		
14.	Disclosure of Voting Pattern of the meeting in which the open	All the IDC members unanimously voted in favor of recommending this Of	fer proposal.	

To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respect, true, correct, and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the Target Company under SEBI (SAST) Regulations.

> Mihika Industries Limited Mr. Rajesh Shah

Committee of Independent Directors

For and on behalf of

(Chairman of IDC)

# डच बैंक एजी

# सार्वजनिक सूचना – संपत्ति की नीलामी सह विक्रय

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों का विक्रय। जबिक, अधोहस्ताक्षरकर्ता डच बैंक एजी, भारत, जर्मनी के संघीय गणतंत्र की विधि—व्यवस्थाओं के अंतर्गत निगमित एवं विद्यमान एक बैंकिंग कंपनी जो तौनुसंलगे 12, डी–60325 फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में अपने पंजीकृत कार्यालय के साथ विद्यमान है तथा भारत में भूतल एवं 14वें तल हिंदुस्तान टाइम्स हाउस, 18–20, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली–110001 (''डच बैंक एजी'') में स्थित अपने शाखा कार्यालय के माध्यम से कार्यरत है, के प्राधिकृत अधिकारी हैं।

बैंक ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (''अधिनियम'') की धारा 13(2) के अंतर्गत एक मांग सूचना निर्गत की थी, जिसमें 26 जुलाई 2021 को ऋणकर्ता(ओं): 1. मैसर्स नं. 1 वर्ल्डवाइड एक्सप्रेस प्रा. लि., 2. श्रीमती ऋतु क्वात्रा, 3. श्री गौरव क्वात्रा, पता प्रथम एवं द्वितीय तल, खसरा सं. 37/7/1/2, एनएच–8, बंध रोड, समलखा, नई दिल्ली–110038, मकान नं. 03073, एटीएस एडवांटेज, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश—201014 एवं भूखंड सं. 14/2, 14/2ए, 14/18ए, 14/19 एवं 14/19ए, 6ठवां तल एंजल बिजनेस स्क्वॉयर, भूखंड सं. 14, साइट 4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद-201001 (उ.प्र.) को, दिनांक 25 जून 2021 के अनुसार, रु. 6,52,71,168.53 (रुपये छह करोड़ बावन लाख इकहत्तर हजार एक सौ अड़सठ एवं तिरेपन पैसे मात्र) की बकाया राशि तथा इस राशि पर ब्याज का, मांग सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

ऋणकर्ता शेष राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं तथा इस प्रकार बैंक ने नियमावली के नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत बैंक को प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, उक्त बकाया राशि की वसूली करने के लिए संपत्ति वाणिज्यिक संपत्ति भूखंड सं. 14/2, 14/2ए, 14/18ए, 14/19 एवं 14/19ए, वाणिज्यिक हॉल (पीछे की ओर), 6ठवां तल छताधिकारों के बिना, एंजल बिजनेस स्क्वॉयर, जो साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, साइट-4, गाजियाबाद-201001 में स्थित है, का अधिग्रहण कर लिया है।

अब, सर्वसाधारण को एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि संपत्ति का विक्रय सार्वजनिक नीलामी द्वारा जैसी है जहां है आधार तथा जैसी है जो है आधार पर 15 जून 2023 को 2 बजे डच बैंक एजी, 14वां तल, हिंदुस्तान टाइम्स हाउस, 18—20, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली—110001

में प्र	में प्रक्रिया तथा निम्न उल्लेखित नियमी एवं शती के अनुसार मोहरबंद लिफाफें में बोलिया आमंत्रित करके किया जायेगाः						
<b>क्र</b> .	संपत्ति पता	संपत्ति का विस्तृत विवरण	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि			
₹і.	वाणिज्यिक संपत्ति जो भूखंड सं. 14/2,	अधि क्षेत्रफल धारक (भूखंड सं. 14 की	₹. 6.71.55.000 / -	जमा			
1 '-	44 /OT 44 /40T 44 /40 TH 44 /40T =	। सब—डिवीजन कल क्षेत्र माप 6024.66 वर्ग।	1	रु. 67,15,500 ∕ —			
		IHICY) SHB MAYOO 14800 GU YOCH					
	तल पर छताधिकारों के बिना, एंजल बिजनेस	[ (अथार् । ३७४.५) पर्ग नाटर) फायट बात्रफल	l 1				
	स्क्वॉयर, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, साइट–4,	0100 11 150 (31 11 ( 000.100 11 110 ))					
	गाजियाबाद—201001 में स्थित है।	वाणिज्यिक हॉल (पीछे की ओर) 6ठवां तल					

छताधिकारों के बिना

संपत्ति के संदर्भ में प्रस्तुत विवरण हालांकि बैंक की सर्वोत्तम जानकारी एवं ज्ञान के अनुसार उल्लिखित किए गए हैं तथापि बैंक उक्त विवरण में हुई किसी त्रुटि, त्रुटिपूर्ण–विवरण अथवा चूक हेतू उत्तरदायी नहीं होगा। अतः निविदादाता(ओं)/प्रस्तावक(कों)/प्रस्तावित बोलीदाता/क्रेता(ओं से उनके स्वयं के हित में अनुरोध है कि वे निविदाएं जमा करने से पूर्व संपत्ति के संबंध में स्वयं को / अपने आप को संतुष्ट कर लें। बैंक वे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार यहां संपत्ति पर कोई ऋणभार नहीं हैं तथा बैंक के पास विधि—व्यवस्था की नियत प्रक्रिया के अनुपालनानुसार संपत्ति के विक्रय का अधिकार है।

offer proposal was discussed

Any other matter to be

Date: Thursday, May 11, 2023

highlighted

Place: Mumbai

सार्वजनिक नीलामी के नियम एवं शर्तैः 1. संपत्ति का निरीक्षण 03 जून 2023 को 11 बजे से 3 बजे के मध्य किया जा सकता है।

- 2. बोलियां, धरोहर राशि जमा (''धराज'') के प्रति ''मैसर्स डच बैंक ईएमडी'' के पक्ष में रु. 67,15,500 / (रुपए सतसठ लाख पंद्रह हजार पांच सौ मात्र) के एक डिमांड ड्राफ्ट / पे ऑर्डर के साथ एक मोहरबंद लिफाफे में रखकर अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में इस प्रकार प्रस्तृत / जमा करनी होंगी ताकि ये डच बैंक एजी के कार्यालय 14वें तल, हिंदुस्तान टाइम्स हाउस, 18–20, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली–110001 15 जून 2023 को अप. 1.00 बजे तक अथवा इससे पूर्व पहुंच जाय।
- प्रस्ताव जो विधिवत ढंग से भरे नहीं जाते हैं अथवा जिन प्रस्तावों के साथ धराज संलग्न नहीं रहती अथवा जो प्रस्ताव यहां इसमें निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होते हैं, उन पर विचार नहीं किया जाएगा / उन्हें वैध प्रस्ताव नहीं माना जाएगा, और तदनुसार उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा। धराज पर कोई भी ब्याज भूगतानयोग्य नहीं होगा।
- बोली प्रपत्र के साथ प्रस्तावित बोलीदाता को अपना पहचान साक्ष्य, निवास का साक्ष्य (जैसे कि पासपोर्ट, चनाव आयोग पत्र, राशन कार्ड,
- ड्राइविंग लाइसेंस, इत्यादि की प्रति) और आय कर विभाग द्वारा निर्गत पैन कार्ड की एक प्रति भी संलग्न करनी होगी। संपत्ति का विक्रय आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं किया जाएगा। 6. विक्रय की तिथि को, विधिवत प्राप्त की गईं समस्त बोलियों को खोला जाएगा तथा सर्वोच्च बोलीदाता की बोली, परंतु शर्त यह है कि यह
- आरक्षित मूल्य से अधिक की हो, को बैंक द्वारा स्वीकार किया जा सकता है। हालांकि नीलामी स्थल पर व्यक्तिगत रूप में उपस्थित बोलीदाताओं के पास यह अधिकार होगा कि वे अपने बोली मूल्य को बाद में बढ़ा सकते हैं, जो कि सर्वोच्च बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित मूल्य से अधिक न्यूनतम रु. 10,000 / – (रुपए दस हजार मात्र) के अधीन होगा और बैंक के पास ऐसी सर्वोच्च बोली को स्वीकार करने का अधिकार होगा। बैंक द्वारा विक्रय के पुष्टिकरण किए जाने पर क्रेता से अपेक्षित होगा कि वह तत्काल प्रभाव से धरोहर राशि जमा का समायोजन करने के उपरांत अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास विक्रय मूल्य की 25% (पच्चीस प्रतिशत) राशि का भूगतान कर दे।
- समय के विस्तार हेतु अनुरोध की अनुमति बैंक द्वारा अपने पूर्ण विवेक पर प्रदान की जा सकती है जो कि उनके द्वारा उपयुक्त एवं समुचित समझे जानेवाले नियमों एवं शर्तों के अधीन है। क्रय मूल्य की शेष राशि का भुगतान क्रेता द्वारा संपत्ति विक्रय के पुष्टिकरण के उपरांत पंद्रह दिवसों पर अथवा इनसे पूर्व अथवा पक्षकारों द्वारा लिखित में किए गए अनुबंध के आधार पर निर्धारित हो सकनेवाली ऐसी ही किसी विस्तारित अवधि में बैंक को करना होगा। अनुबंधित समय के अंदर संपूर्ण राशि के भुगतान में चूक होने पर बैंक को धराज तथा/अथवा क्रेता द्वारा किए गए किसी अन्य भुगतान और संपत्ति की पुनर-नीलामी से होनेवाली आय को जब्त करने की स्वतंत्रता होगी। चूककर्ता क्रेता के संपत्ति अथवा बाद में इसे बेचकर मिलनेवाली राशि के किसी भाग से संबंधित समस्त दावों को जब्त कर लिया जाएगा।
- समस्त भूगतान क्रेता द्वारा ''डच बैंक ईएमडी'' के पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफ्ट / पे ऑर्डर के माध्यमों से किए जाएंगे। 9. पूर्ण विक्रय मूल्य की प्राप्ति पर बैंक, क्रेता / उसके नामिती के पक्ष में एक विक्रय प्रमाणपत्र निर्गत करेगा तथा संपत्ति का अधिग्रहण क्रेता को
- 10. इस प्रकार संपत्ति जो है वह समस्त संदर्भों में तथा बैंक द्वारा विक्रय के पुष्टिकरण की तिथि से संपत्ति से संबंधित समस्त जोखिमों यथा अग्नि द्वारा होनेवाली हानि अथवा क्षति अथवा चोरी अथवा अन्य दुर्घटनाएं क्रेता में निहित होंगी। क्रेता किसी भी आधार पर, चाहे जो कुछ भी हो, विक्रय निरस्त करने के लिए अधिकृत नहीं होगा।
- 11. धराज के प्रति जमा किए गए डिमांड ड्राफ्ट / पे ऑर्डर असफल बोलीदाताओं को वापस कर दिए जाएंगे।
- 12. संपत्ति के संदर्भ में स्टांप शूल्क, पंजीकरण शूल्कों, हस्तांतरण शूल्कों तथा किसी अन्य शूल्क से संबंधित समस्त व्ययों का भुगतान क्रेत द्वारा वहन किया जाएगा। संपत्ति के संदर्भ में निर्धारित अति देयताओं सिहत समस्त व्यय अर्थात् नगर निगम कर, अनुरक्षण/सोसाइटी शुल्कों, विद्युत एवं जल करों, शेष अथवा किसी अन्य देयता का भुगतान सफल क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा।
- 13. बैंक सर्वोच्च प्रस्ताव अथवा किसी या समस्त प्रस्तावों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है तथा बैंक के पास बिना कोई कारण बताए किसी बोली अथवा समस्त बोलियों को निरस्त करने का अपना अधिकार सुरक्षित है।
- 14. बोलीदाताओं के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को स्वयं अपने आप अथवा उसके विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि को विक्रय कार्यवाहियों ग
- प्रतिभागिता करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। 15. यदि उपरोक्त नामित ऋणकर्ता द्वारा संपत्ति के विक्रयार्थ निर्धारित तिथि से पूर्व किसी भी समय अधिनियम की धारा 13(8) के अंतर्गत बैंक द्वारा उपगत समस्त लागतों, शूल्कों एवं व्ययों के साथ समस्त बकाया देयराशियों का भूगतान कर दिया जाता है तो संपत्ति का विक्रय नहीं किया जाएगा और प्रस्तावित बोलीदाताओं से प्राप्त समस्त बोलियां, बैंक के विरुद्ध किसी देयता/दावा के बिना उन्हें वापस कर दी जाएंगी।
- यह सुचना उपरोक्त ऋणकर्ता हेतु प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत एक सुचना भी है। हस्ता./- दानिश खान

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 12 मई 2023 प्राधिकृत अधिकारी– डच बैंक ए.जी. संपर्क संख्याएं: 011 71109563

पुनर्निर्माण एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत उक्त नियमावली के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए आईआईएफएल होम फाइनांस लि. ( आईआईएफएल एचएफएल) (पर्व में इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लि.) के प्राधिकत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सचना जारी कर ऋणधारकों को उन्हें जारी की गई संबंधित मांग सचना ओं) में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया। उपरोक्त के सिलसिले में एक बार पुनः एतदद्वारा ऋणधारकों को निर्देश दिया जाता है कि मांग सचना की तिथि से भुगतान की तिथि तक आगे के ब्याज

	के साथ यहां नीचे दशोई गई राशि का इस सूचना के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर भुगतान करें। ऋणधारकों, मांग सूचना की तिथि को बकाया राशि तथा ऋण राशि के पुनर्भुगतान के लिये प्रस्तावित प्रतिभृति का विवरण इस प्रकार है:					
ऋणधारकों/गारन्टरों/ का नाम	मांग सूचना तिथि एवं राशि	प्रतिभूति परिसम्पत्ति (अचल सम्पत्ति) का विवरण				
श्री विवेक गौतम, श्रीमती आशा देवी, विवेक फुटविअर (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10177076)	रु. 15,42,093/- (रु. पन्द्रह	सम्पति का सभी भाग तथा हिस्साः प्लॉट नं. 59, खसरा नं. 130 मिन वाके डिफेन्स, भूमि एरिया माप 1274 वर्ग फीट, कॉर्पेट एरिया माप 100 वर्ग फीट, निर्मित एरिया माप 1459 वर्ग फीट, ग्रीन मौज सेमरी, सेमरी, आगरा, उत्तर प्रदेश, भारत-282009				
श्री किशन गुप्ता, श्रीमती पूनम गुप्ता, (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10091828)	9 <b>मई, 2023</b> रु. 8,05,934/- (रु. आठ लाख पांच हजार नौ सौ चौंतीस मात्र)	सम्पति का सभी भाग तथा हिस्साः प्लॉट नं. 111 का भाग, भूमि एरिया माप 796.42 वर्ग फीट, कार्पेट एरिया माप 100 वर्ग फीट तथा निर्मित एरिया माप 597 वर्ग फीट तथा निर्मित एरिया माप 597 वर्ग फीट, खसरा नं. 558, दुर्गा विहार, बोडला, आगरा, भारत 282007				
श्री हर्ष अगरवाल, श्रीमती अनीता अगरवाल एचडीए क्रिएशन्स (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10084942)	,	सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्साः प्लॉट नं. 34ए, कार्पेट एरिया 382 वर्ग फीट, सुपर निर्मित एरिया 450 वर्ग फीट, यूजीएफ बैक साइड एलएचएस ब्लॉक-1, गली नं. 31, राजा पुरी, उत्तम नगर, दिल्ली-110059				
श्री अभिशेक भड़ाना श्रीमती पूनम घांगल रिशेक कन्स्ट्रक्शन्स प्रा. लि., राहुल (प्रॉस्पेक्ट नं. IL977489)	रु. 72,80,716/- (रु. बहत्तर लाख अस्सी हजार सात सौ सोलह मात्र)	सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्साः प्लॉट नं. 980-ए, सेक. 21-डी, भूमि एरिया माप 969 वर्ग फीट, कॉर्पेट एरिया माप 674 वर्ग फीट, सुपर निर्मित एरिया माप 639 वर्ग फीट, फरीदाबाद, फरीदाबाद एनआईटी फरीदाबाद 121001, हरियाणा, भारत				
श्री संदीप कुमार, श्री अमित कुमार, श्रीमती किरण, श्रीमती कृष्णा देवी, मै. किरण	रु. 20,37,527/−	सम्पति का सभी भाग तथा हिस्साः प्लॉट नं. 509, खसरा नं. 740/496, चिराग दिल्ली, भूमि एरिया माप 1278 वर्ग फीट, कार्पेट एरिया माप 1536 वर्ग फीट, निर्मित एरिया माप 1807 वर्ग फीट, चिराग दिल्ली, दक्षिण दिल्ली–110017, दिल्ली, भारत				

यदि उक्त ऋणधारक उपरोक्त रूप में आईआईएफएल एचएफएल को भगतान करने में विफल होते हैं तो आईआईएफएल एचएफएल ऋणधारकों की जोखिमों एर लागत पर उक्त अधिनियम की धारा 13(4) तथा लाग होने वाले नियमों के अंतर्गत उक्त प्रतिभत परिसम्पत्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगा। अधिक विवरणों के लिय कृपया **शाखा कार्यालय**: प्लॉट नं. 30/30 ई, ऊपरी भू तल, मैन शिवाजी मार्ग नजफगढ़ रोड, जगुआर शो रूम के बगल में, मोती नगर, नई दिल्ली/ऑफिर ां. 1, प्रथम तल, महालक्ष्मी मेट्रो टावर, प्लॉट नं. सी-1, सेक्टर-4, वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201010/यृनिट नं. 309, पदम बिजनेस पार्क, प्लॉट नं आईएनएस-1, सेक्टर-12 ए, आवास विकास, सिकन्द्रा योजना, आगरा-282007 में प्राधिकृत अधिकारी अथवा **कॉर्पोरेट कार्यालयः** आईआईएफएल टावर, प्लॉर नं. 98, उद्योग विहार, फेज-IV, गुड़गाँव, हरियाणा में सम्पर्क करें।

पांच सौ सत्ताईस मात्र)

(पॉस्पेक्ट नं 958178)

स्थान : दिल्ली तिथि: 12.05.2023 हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनांस लि. के लिये

#### POST-OFFER PUBLIC ANNOUNCEMENT TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF PH TRADING LIMITED

Corporate Identification Number: L51109WB1982PLC035011: Registered Office: B Block, 113, 10th Floor, Park Street, Kolkata – 700016, West Bengal, India; Contact Details: +033 - 22299697 / 22299538 / 40675050 / 22268993; Website: https://phtradinglimited.com/; Email Address: himatsingka@hotmail.com;

Open Offer for acquisition of up to 1,23,340 (One Lakhs Twenty-Three Thousand Three Hundred and Forty) Equity Shares, representing 25.70% (Twenty-Five Point Seven Zero Percent) of the Voting Share Capital of PH Trading Limited ('PHTRADING' or 'Target Company'), at an offer price of Rs.75.00/- (Rupees Seventy-Five Only) ('Offer Price'), made by Santan Investment Advisory LLP ('Acquirer 1'), Mr. Mallinath Madineni ('Acquirer 2'), and Mrs. Prathima Mallinath Madineni ('Acquirer 3'), in accordance with the provisions of Regulations 3 (1) and 4 of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, and subsequent amendments thereto ('SEBI (SAST) Regulations') ('Offer').

This Post-Offer Public Announcement is being issued by Bonanza Portfolio Limited, the Manager to the Offer ('Manager'), on behalf of the Acquirers, in connection with the Offer made by the Acquirers to the Public Shareholders of the Target Company, pursuant to and in compliance with the provisions of Regulation 18 (12) and other applicable provisions under the SEBI (SAST) Regulations ('PoPA'). This PoPA should be read in continuation of, and in conjunction with the: (a) Public Announcement dated Friday, January 06, 2023 ('PA'), (b) Detailed Public Statement dated Thursday, January 12, 2023, published on Friday, January 13, 2023, in the newspapers, namely being, Financial Express (English daily) (All Editions), Jansatta (Hindi daily) (All Editions), Mumbai Lakshadweep (Marathi Daily) (Mumbai Edition), and Duranta Barata (Bengali daily) (Kolkata Edition) ('Newspapers') ('DPS'), (c) Letter of Offer dated Friday, April 07, 2023, along with form of Acceptance cum Acknowledgement ('Letter of Offer' or 'LOF'), and (d) Pre-Offer Advertisement cum Corrigendum to the Detailed Public Statement dated Tuesday, April 18, 2023, published in the Newspapers on Wednesday, April 19, 2023. This PoPA is being published in the same aforesaid Newspapers. 1. Name of the Target Company PH Trading Limited

١.	Name of the Target Company	PH Trading Limited					
2.	Name of the Acquirers and PACs	Santan Investment Advisory LLP (Acquirer 1), Mr. Mallinath Madineni (Acquirer 2), and Mrs. Prathima Mallinath Madineni (Acquirer 3). There is no person acting in concert with the Acquirers for this Offer.					
3.	Name of Manager to the Offer	Bonanza Portfolio Limite	·				
4.	Name of Registrar to the Offer	Purva Sharegistry (India					
5.	Offer Details	T diva onarcgistry (mala	Turva Orlandgiotry (India) i Tivato Elititoa				
5.1	Date of Opening of the Offer	Thursday, April 20, 202	3				
5.2	Date of Closing of the Offer	Thursday, May 04, 202					
6.	Date of Payment of Consideration	Friday, May 19, 2023					
7.	Details of the Acquisition	1 11ddy, 14dy 10, 2020					
-	Particulars	Proposed in the O	fer Documents		Actuals		
	T di libulato	(Assuming full accept		•			
7.1	Offer Price	Rs.75.0	00/-	R	s.75.00/-		
7.2	Aggregate number of Equity Shares tendered	1,23,3	40		0		
7.3	Aggregate number of Equity Shares accepted	1,23,3	40		0		
7.4	Size of the Open Offer(Number of Equity Shares multiplied by Offer Price per Equity Share)	Rs. 92,50,500/-					
7 5			111				
7.5	Number of Equity Shares	the Share Purchase Agreement/ Public Announcement 41,710 41,710					
a)					41,710		
b)	% of fully diluted Equity Share capital	11 21		8.69%			
7.6	Equity Shares acquired by way of Share Purch	_	F.O.		11.050		
a)	Number of Equity Shares	3,14,9			,14,950		
b)	% of fully diluted Equity Share capital	65.61	%	C	55.61%		
7.7	Equity Shares acquired by way of Offer	1 00 0	40		K III		
a)	Number of Equity Shares	1,23,3		Nil			
b)	% of fully diluted Equity Share capital	25.70	%		0 %		
7.8	Equity Shares acquired after the Detailed Publi				K III		
a)	Number of Equity Shares acquired	Nil		Nil			
p)	Price of the Equity Shares acquired	Nil			Nil		
c)	% of Equity Shares acquired	Nil	- 8		Ni		
7.9	Post-Offer shareholding of the Acquirers	1 00 0	00		50.000		
a)	Number of Equity Shares	4,80,000			,56,660		
b)	% of fully diluted Equity Share capital	1009	6		74.30%		
7.10	Pre-Offer and Post-Offer shareholding of the Pu		P 4 0"	D 0//	B 1 O//		
	Particulars	Pre-Offer	Post-Offer	Pre-Offer	Post-Offer		
a)	Number of Equity Shares	1,23,340	Nil	1,23,340	1,23,340		
b) 8.	% of fully diluted Equity Share capital  The Acquirers accept full responsibility for the inform.	25.70%	0.00%	25.70%	25.70%		

The Acquirers will consummate the Share Purchase Agreement transaction in accordance with the provisions of Regulations 22 (1), and 22 (3) read with 17 of the SEBI (SAST) Regulations and will make an application for reclassification of themselves as the promoters of the Target Company in accordance with the provisions of Regulation 31A (10) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, including subsequent amendments thereto ('SEBI (LODR) Regulations').

10. A copy of this PoPA will be accessible on the websites of Securities and Exchange Board of India at www.sebi.gov.in, BSE at www.bseindia.com and the registered office of the Target Company. 11. The capitalized terms used in this PoPA shall have the meaning assigned to them in the LoF, unless otherwise specified

**ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER** BONANZA PORTFOLI LIMITED

# Bonanza

Bonanza House, Plot No. M-2, Cama Industrial Estate Walbhat Road, Behind The Hub, Goregaon East, Mumbai - 400 063, Maharashtra, India Contact Number: +91-22-62735500/ 68363700 Email Address: swati.agrawal@bonanzaonline.com Contact Person: Ms. Swati Agrawal SEBI Registration Number: INM000012306

Validity: Permanent for Santan Investment Advisory LLP

Sd/- Mallinath Madinen (Partner)	Sd/- Prathima Mallinath Madineni (Partner)	Sd/- (Mallinath Madineni)	Sd/- (Prathima Mallinath Madineni)
Date: Thursday, May 11, 2023			

Place: Mumbai

भारत सरकार रक्षा मंत्रालय

भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना

स्टेशन मुख्यालय (ईसीएचएस सेल), ७बीआरडी वायुसेना केंद्र तुगलकाबाद ई मेल:- echstughlakabad7brd@gmail.com रोजगार सुचना

1. ईसीएचएस, ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक, खानपुर में संविदात्मक आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित पैरा मेडिकल और नॉन मेडिकल स्टाफ को नियुक्त करने के लिए आवेदन आमंत्रित करता हैं, जो एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए/अधिकतम आयु प्राप्त करने तक उम्मीदवारों के प्रदर्शन/अन्य शर्तों के अनुसार प्रत्येक पद के सामने उल्लिखित मानदंड के अनुसार होगाः-

नियुक्ति	न्यूनतम योग्यता	रिक्ति की संख्या	नियत पारिश्रमिक
नर्सिंग सहायक	जीएनएम डिप्लोमा/क्लॉस I नर्सिंग सहायक कोर्स (सशस्त्र सेना)	01	28100/-
लैब टेक्नीशियन	(i) बी.एससी (मेडिकल लैब तकनीशियन) या	01	28100/-
	(i) मान्यताप्राप्त बोर्ड से विज्ञान सहित मैट्रिकुलेशन/हायर सेकेंड्री/सीनियर सेकेंड्री (10+2)		
	(ii) मान्यताप्राप्त संस्थान से मेडिकल लैब में डिप्लोमा		
लिपिक	ग्रेजुएट/क्लास I लिपिक ट्रेड (सशस्त्र सेना)	01	16800/-

2. नियम और शर्तों, आवेदन पत्र और पारिश्रमिक के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.echs.gov.in देखें, अतिरिक्त विवरण के लिए, कृपया स्टेशन मुख्यालय (ईसीएचएस सेल) 7 बीआरडी, वायुसेना केंद्र तुगलकाबाद से मोबाइल नंबर 9127090453, 7389846429 और ई-मेल आईडी echstughlakabad7brd@gmail.com पर संपर्क करें। विवरण के लिए संबंधित ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक से भी संपर्क करें। भूतपूर्व सैनिकों को वरीयता दी जाएगी।

3. हमारी वेबसाइट पर दिए गए प्रारूप के अनुसार आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि : शैक्षिक योग्यता और कार्य अनुभव के समर्थन में प्रशंसापत्र की स्वयं प्रमाणित फोटोकॉपी के साथ आवश्यक प्रारूप के अनुसार आवेदन डुप्लीकेट कॉपी में ओआईसी ईसीएचएस सेल, 7बीआरडी वायु सेना केंद्र, तुगलकाबाद-110080 में 12 जून, 2023 तक जमा किया जाएगा। 12 जून, 2023 के बाद प्राप्त किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। 4. साक्षात्कार की तिथि, समय और स्थान : साक्षात्कार के लिए उम्मीदवार को 13 जून 2023 को 1000 बजे ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक वाया 7 बीआरडी वायु सेना केंद्र, तुगलकाबाद पहुंचना चाहिए। उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय सभी मूल प्रमाणपत्र/मार्कशीट/10वीं/मैट्रिक की डिग्री, 10+2 और

स्नातक/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा/पाठ्यक्रम, कार्य अनुभव और डिस्चार्ज बुक, पीपीओ, सेवा रिकॉर्ड और 01 पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ लाना

होगा। । कोई टीए/डीए स्वीकार्य नहीं है। केवल गुणात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं।

YES // BANK

सांताकुज पूर्व, मुंबई–400055, भारत, वेबसाइटः www.yesbank.in ई-मेलः communications@yesbank.in, सीआईएनः एल65190एमएच2003पीएलसी143249 क्षेत्रीय कार्यालय: 5वां तल मैक्स टॉवर सेक्टर 16बी नोएडा उ.प.-201301

अचल संपोत्तयों के विक्रयार्थ विक्रय सूचना

के अंतर्गत अचल प्रतिभूत परिसंपत्ति के विक्रयार्थ 15 दिवसों की पूर्व विक्रय सूचना

निम्न वर्णित अचल संपत्ति को मैसर्स पी एस एंटरप्राइजेज द्वारा अपने साझीदार (''उधारकर्ता'') के माध्यम से प्राप्त उधार सुविधाओं को प्रतिभूत करने के लिये यस बैंक लिमिटेड के पक्ष में बंधककृत रखा गया है। चुंकि आप सरफॉएसि अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत निर्गत मार्ग सचना दिनांकित 08 जुलाई 2022 की अनदेखी कर चुके हैं और वहां उसमें अर्थात सुचना में अंकित बकाया देयराशियों का भुगतान करने में विफल हो चुके हैं, इसलिये हम ने निम्न वर्णित अचल संपत्ति का 22-02-2023 को भौतिक अधिग्रहण कर लिया है। हम एतद्द्वारा आपको सावधान भी करते हैं कि हम ई—नीलामी के माध्यम से निम्न वर्णित अचल संपत्ति को 29—05—2023 को बेच देंगे। ई—नीलामी के विवरण, यथा समुचित विवरण, आरक्षित मुल्य तथा धरोहर राशि जमा (धराज) निम्नानुसार हैं:

उधारकर्ता / बंधककर्ता /	संपत्ति की अनुसूची	राशि एवं तिथि	आरक्षित मूल्य	धराज
गारंटरों / साझीदार का नाम तथा पता				
1. मैसर्स पी एस एंटरप्राइजेज ("उधारकर्ता") अपने स्वामी के		∙ ₹. 1,03,08,670 ∕ −	₹.	₹.
माध्यम से, पता– गली नंबर ए–1, सुभाष नगर, ज्वालापुर,	नंबर 121, 124 (कुल	(रुपये एक करोड़	2,13,75,000 / -	21,37,500 / -
हरिद्वार, उत्तराखंड—249407	क्षेत्रफल 953.70 वर्ग		(रुपये दो करोड़	(रुपये
2. श्री सुरेंद्र सिंह (''बंधक और गारंटर'') पुत्र श्री ब्रह्म देव	मीटर) पर स्थित	हजार छह सौ	तेरह लाख	इक्कीस लाख
सिंह, पता– गली नंबर ए–1, सुभाष नगर, ज्वालापुर, हरिद्वार,	औद्योगिक संपत्ति जो	सत्तर मात्र)	पिचहत्तर	सैंतीस हजार
उत्तराखंड—249407, इसके अलावा यहां भी : औद्योगिक			हजार मात्र)	पांच सौ मात्र)
संपत्ति भूखंड सं. 33 ई, खसरा नं. 121 व 124, इंडस्ट्रियल	बेगमपुर, परगना रुड़की,			
पार्क–4, ग्राम– बेगमपुर, परगना रुड़की, तहसील एवं	तहसील और जनपद			
जनपद— हरिद्वार, उत्तराखंड—249403	हरिद्वार, उत्तराखंड में			
	स्थित है।			
	0 0()			

उधारकर्ता / गारंटर(रों) / प्रतिमृति प्रदाता(ओं) विधिक उत्तराधिकारी(यों) से एतदद्वारा विनती की जाती है कि वे इस सूचना की प्राप्ति व 15 दिनों के अंदर प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित नियम 8(5) के अंतर्गत नियत प्रावधानों के अनुसार, बकाया राशि रु. 1,03,08,670 / – (रुपये एक करोड़ तीन लाख आठ हजार छह सौ सत्तर मात्र) की राशि का, राशि पर देयक उत्तरवर्ती ब्याज और अन्य शुल्कों के साथ प्रतिभगतान कर दें। यदि उधारकर्ता / गारंटर(गण) / प्रतिभृति प्रदाता(गण) एवं विधिक उत्तराधिकारीगण ऋणों का प्रतिभुगतान करने में विफल रहते हैं, तो यहां इसमें ऊपर उल्लिखित संपत्तियों को "जैसी है जहां है आधार", ''जैसी है जो है आधार'', ''वहाँ जो कुछ भी है आधार'' तथा ''बिना उपाय आधार'' पर (ऋणभारों, यदि कोई हो, सहित) उपरोक्त वर्णितानुसार ई-नीलामी के माध्यम से बेच दिया जायेगा। दिनांकः 12-मई-2023, स्थानः नोएडा

हस्ता./- (प्राधिकृत अधिकारी) यस बैंक लिमिटेड



इन्द्रप्रस्थ मेडिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड पंजी. कार्यालय : सरिता विहार, दिल्ली-मथुरा रोड, नई दिल्ली 110 076 (भारत ) निगमित पहचान संख्या. : L24232DL1988PLC030958 दूरभाष : 91-11-26925858, 26925801, फेक्स : 91-11-26823629 ई-मेल: imcl@apoliohospitals.com, वेबसाइट : delhi.apoliohospitals.com

सेबी (लिस्टिंग दायित्व तथा प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015, के विनियम 47 के अनुसार सूचित किया जाता है कि कम्पनी की निदेशक मंडल की बैठक मंगलवार 23 मई, 2023, को आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 31 मार्च, 2023, को समाप्त तिमाही और वर्ष के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुशंसा की जायेगी और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के इक्विटी शेयरों पर लागांश, यदि कोई हो. पर विचार करना और उसकी सिफारिश की जायेगी।

उपर्युक्त जानकारी कंपनी की वेबसाइट https://delhi.apollohospitals.com पर और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

नई दिल्ली 11.05.2023

एवीपी - कॉर्पोरेट मामले एवं विधि

#### फॉर्म नं. INC-26

(कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुक्रम में) कंपनी के पंजीकृत कार्यालय / रजिस्टर्ड ऑफ़िस के एक राज्य से दूसरे में बदले जाने के लिए समाचार पत्र में

> केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली के समक्ष

प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 13(4) एवं कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5) (ए) के मामले में

महान एनेर्जन लिमिटेड: के मामले में

जिनका पंजीकृत कार्यालय "अदाणी हाउस, सी-105, आनन्द निकेतन, नई दिल्ली-110021'' पर स्थित है

ः.. याचिकाकर्ता आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी ने 2 मई 2023 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प

के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ़ एसोशिएशन में परिवर्तन की पुष्टि करते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार को आवेदन करके प्रस्तावित किया है कि कंपनी अपना पंजीकृत कार्यालय ''यूनियन टेरीटरी ऑफ दिल्ली'' से ''गुजरात राज्य'' में बदलने की सक्षमता प्राप्त कर सके. कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित

होने की संभावना है, इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के अंदर वह या तो एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निदेशक शिकायत फॉर्म दर्ज करके या क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, दसरी मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 संबंधित को अपने हित की प्रकृति और विरोध के कारण बताते हुए एक शपथ पत्र द्वारा अपनी आपत्तिया भेजेगा अथवा पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करेगा और उनकी एक प्रतिलिपि आवेदन कंपनी को उसके पंजीकृत कार्यालय पर निम्नलिखित पत्ते पर भेजी जाएगी।

# महान एनेर्जन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः अदाणी हाउस, सी-105, आनन्द निकेतन, नई दिल्ली- 110 021

CIN: U40100DL2005PLC201961

कृते महान एनेर्जन लिमिटेड जयदेब नंदा हस्ता / -

दिनांक: 10 मई, 2023 स्थान: दिल्ली

निदेशक DIN: 06578925 PUBLIC NOTICE

# Notice: HDFC Ltd, Registered office: Ramon House,

H T Parekh Marg, 169, Backbay Reclamation Churchgate, Mumbai, Maharashtra, 40002 Notice is hereby given that the certificate for the indermentioned securities of the Company has een lost/misplaced and the holder of the said securities/ applicant has applied to the Company to ssue a duplicate certificate. Any person who claims in respect of the said securities should lodge such a claim with the Company at its Registered Office within 15 days of

his date, else the Company will proceed to issue duplicate certificate without further intimation. Name of Holder: Ashok Kumar D Azwani, Equity Shares 250 Nos., 5281636 to 5281885 Place: Delhi, Date: 12-05-2023.

सार्वजनिक सूचना तीमित देयता भागीदारी के रजिस्टार के समक्ष, कंपनी रजिस्ट्रार एनसीटी दिल्ली सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13(3) के मामले में

एस्कुलेपियन टच एलएलपी के मामले में, जिसको कार्यालय 31, बेसमेंट सिरी फोर्ट रोड. नई दिल्ली-110049 में पंजीकृत है

रतदद्वारा सचित किया जाता है कि एलएलर्प अधिनियम, 2008 की घारा 13 की उप—घारा (3) के तहत एलएलपी के पंजीकत कार्यालय को दिल्ली के एनसीटी से हरियाणा राज्य में स्थानांतरित करने के बारे में एक प्रस्ताव एस्कुलेपियन टच एलएलपी के भागीदारों द्वारा 11 मई, 2023 को आयोजित बैठक में पारित किया गया है।

कोई भी व्यक्ति जिसका कम्पनी के पंजीकत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से कोई भी हिंत प्रभावित होने की संभावना हो, वह अपने हितों की प्रकृति बताते हुए एक हलफनामे के द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियों को पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है कंपनी रजिस्ट्रार, चौथी मंजिल, आईएफसीआई टॉवर, 61, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली–110019 के विरोध के आधार आवेदक एलएलपी को प्रति के साथ नीचे दिए गए पते पर इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर प्रकृति के साथ आवदेन के हित और विरोध के आधार । पंजीकृत कार्यालयः ३१, बेसमेंट सिरी फोर्ट रोड,

नई दिल्ली-110049 एस्क्लेपियन टच एलएलपी की ओर से दीपक कुमार

(नामित भागीदार) डीपीआईएनः 07398421

www.readwhere.com

